

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – षष्ठ

दिनांक -05-09-2020

विषय -हिन्दी (व्याकरण)

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों पाठ 11 काल के अन्तर्गत वर्तमान काल के उपभेद के बारे में अध्ययन करेंगे ।

वर्तमान काल के भेद

वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं -

- सामान्य वर्तमान काल

- अपूर्ण वर्तमान काल (

- संदिग्ध वर्तमान काल

सामान्य वर्तमान काल

उदाहरण :-

राधिका खाना खाती है ।

मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ ।

ऊपर दिए गए वाक्यों से क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चल रहा है ।

सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा :- क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से चलने वाले समय (काल) में होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं । इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते, हूँ, हो, है आदि लगाया जाता है ।

अपूर्ण वर्तमान काल

उदाहरण :-

श्याम मंदिर जा रहा है ।

मंत्रीजी भाषण दे रहे हैं ।

ऊपर दिए गए वाक्यों से क्रिया के वर्तमान समय में चलने का पता चल रहा है जो समाप्त नहीं हुई है ।

अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा :- जिन शब्दों से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है समाप्त

नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं | अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है आदि लगाए जाते हैं |

संदिग्ध वर्तमान काल

उदाहरण :-

टी.वी. पर मैच आ रहा होगा |

राधा परीक्षा दे रही होगी |

संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा :- जिन शब्दों से क्रिया के वर्तमान समय में होने या घटित होने पर संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं | संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया के साथ जाता होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि का प्रयोग किया जाता है |

गृहकार्य

(1) संकेत के आधार पर वाक्यों का काल बदलकर लिखिए -

(क) राज क्रिकेट खेलने चला गया। (वर्तमान काल)

(ख) अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। (भविष्यत् काल)

(ग) हम सब आगरा नहीं दिल्ली जाएँगे। (भूतकाल)